

Dt.: 02nd January, 2020

1. Listing Department (Fax : 022-22723719 /22722037/
BSE Limited 22722041 /22722061/
Phiroze Jeejeebhoy Towers 22722039 /22658121)
Dalal Street, Mumbai 400001

2. Listing Department (Fax : 022-26598237/26598238)
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No. C/1, G Block,
Bandra-Kurla Complex
Bandra (East), Mumbai 400001

Subject: Recommendations of the Committee of Independent Directors (IDC) on the Open Offer to the Shareholders as per Regulation 26(7) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011

Dear Sir/ Ma'am,

Please be informed that the recommendations of the Committee of Independent Directors on the Open Offer to the Shareholders of the Target Company under Regulation 26(7) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto, duly signed by the Chairman of the Committee of Independent Directors, for acquisition of up to 13,916,676 fully paid-up equity shares of face value of Rs. 10/- each, representing approximately 25.02% of the total equity share capital of Target Company on a fully diluted basis, from the eligible equity shareholders, by Tenneco Inc. ("Acquirer") together with Icahn Enterprises LP ("IEP"), American Entertainment Properties Corp. ("AEP") and IEH FMGI Holdings LLC ("IEH") (collectively known as "PACs") has been published today in Business Standard (English), Business Standard (Hindi) and Jansatta (Regional Language Daily Hindi) newspapers dt. January 02, 2020, copies of the same are enclosed.

This is for your information and record.

Regards,

Yours truly,

For Federal-Mogul Goetze (India) Limited

(Dr. Khalid Iqbal Khan)
Whole-time Director-Legal & Company Secretary

Encl: As above

CC: (1) The Securities and Exchange Board of India (SEBI)
(2) CKP Financial Services Private Limited (Manager to the Offer)


Federal-Mogul Goetze (India) Limited

Registered Office : DLF Prime Towers, 10 Ground Floor, F- 79 & 80, Okhla Phase- I, New Delhi- 110020
Tel./ Fax: +91.11. 49057597

Corporate Identification Number: L74899DL1954PLC002452

Corporate Office : Paras Twin Towers, 10th Floor, Tower B, Sector 54, Golf Course Road, Gurgaon-122 002
Tel.: +91.124.4784530, Fax: +91.124.4292840

QUICK TAKE: ESCORTS DIPS ON MUTED SALES



The Escorts stock fell close to 4 per cent after the December quarter sales disappointed the Street. Despite the 10 per cent sales decline, analysts continue to be positive, given the recovery in farm incomes and agri-led spending, which should boost demand for its tractors



"Short term is unclear, but long term is excellent" Note: what is long term, must NEVER be specified!
SHANKAR SHARMA, co-founder, First Global

Baroda, Union MFs bank on mergers to increase reach

AUM of both companies declined in September quarter

JASH KRIPLANI & ABHIJIT LELE
Mumbai, 1 January

The smaller-sized fund houses — Baroda Asset Management Company (AMC) and Union AMC — which are yet to gain a significant foothold in ₹27-trillion mutual fund (MF) industry, are looking to increase their market share as bank mergers give their sponsor banks access to a wider branch network.

At the end of the September quarter (Q2), Union AMC's average assets under management (AUM) stood at ₹4,089 crore, while that of Baroda AMC stood at ₹10,676 crore.

Compared to the corresponding period last year, Union AMC's AUM was down 16 per cent, while the AUM for Baroda AMC was down 21 per cent.

Both fund houses have lost assets over a period, even though the MF industry has managed an overall growth of 6 per cent, despite headwinds from regulatory changes, and the weakness in debt and equity markets.

"The bank merger gives us access to a wider customer base and more importantly a more geographically diversified presence. While Dena Bank is more strong in western parts, Vijaya Bank has a stronger presence in the southern parts," said Anthony Heredia, chief executive officer of Baroda AMC.


According to those privy to the development, the merger is an important one for the bank, given it will help it source a larger part of its revenues through fee-based income streams.

"The idea is to find ways to increase fee-based income



EYEING INROADS (₹ cr)

Both AMCs are looking to gain market share following the bank merger



without incurring any further significant costs. This is where the bank mergers will come into play as they will help us in quickly plugging the gaps in the system, and leverage our network," said an official of Bank of Baroda.

For the relatively small-sized Union AMC, adding to its sales team would be key to leveraging the enhanced distribution network.

"The main benefit will be that the number of bank branches will double post-merger. We will be able to access much larger number of locations. Andhra Bank is stronger in Telangana and the Andhra region, whereas Corporation Bank has a strong presence in Karnataka," said G Pradeepkumar, chief executive officer of Union AMC.

Pradeepkumar added the AMC would need to add more people to its sales force to cater to this widened distribution presence. Both fund houses will get access to a much wider customer base due to existing relationships of the banks that are being subsumed.

MF participants say there remains a huge scope of untapped opportunity for growth, as the market remains underserved even

with 44 players currently operating. The penetration of MFs in India stands at 11 per cent of gross domestic product, which is significantly lower than other developing economies such as Brazil (59 per cent) and South Africa (49 per cent).

According to a report by the industry body Association of Mutual Funds in India, the industry has the potential to reach the ₹100-trillion mark, 3.7-times from the current levels of ₹27 trillion.

"Fund houses of all sizes have a huge opportunity in front of them, given the under-penetration of the domestic MF industry," said the chief executive officer of another fund house.

Higher volumes, margins to fuel growth for city gas distributors

Rising demand, soft natural gas prices bode well for earnings of major firms

UJJVAL JAUHARI
Mumbai, 1 January

The Gujarat Gas stock surged over 7 per cent and scaled its all-time high on Wednesday. At the same time, the stock of Indraprastha Gas (IGL) is also close to its peak, while that of Mahanagar Gas (MGL) is trading at around its 22-month high.

The Street's confidence on city gas distributors (CGD) remains high, considering the firm demand for gas, rising volumes, and future growth potential.

All three companies have received upgrades by foreign brokerages.

With lower natural gas prices (global prices down over 20 per cent in two months), their profitability, too, will continue to improve.


The CGD companies have already outperformed their upstream and downstream oil

and gas peers, driven by strong volume-led earnings growth, and margin expansion during the September quarter (Q2).

The CGD companies saw improvement in margins of 153-460 basis points in the September quarter year-on-year, while volumes grew up to 40 per cent year-on-year, with Gujarat Gas leading the pack. Not surprising then, that their profits rose 25-125 per cent year-on-year in Q2.

The forward outlook remains strong, say analysts. Volume growth is expected to be healthy, led by increased availability of natural gas, as well as rising demand for CNG (compressed natural gas) by automobiles, PNG (piped natural gas) for household and industrial use, more so in the back of pollution control measures.

The government, too, aims to increase the share of gas in



Data compiled by BS Research Bureau



EARNINGS GROWTH TRAJECTORY

	EPS (₹)		CAGR (%)	
	FY19	FY20E	FY21E	FY19-21E
Gujarat Gas	6.1	12.7	14.6	54.8
Indraprastha Gas	14.9	16.3	18.8	12.2
Mahanagar Gas	72.4	77.2	82.3	6.6

E: estimates, EPS: earnings per share Source: Sharekhan Research

India's energy mix to 20 per cent by 2025 from the 60 per cent at present, which — along with the thrust to promote use of natural gas to reduce pollution — provides strong volume growth opportunity for the three listed CGD companies.

This, coupled with the allocation of cheap domestic gas (for CNG and domestic PNG use) and low LNG prices, will help CGD companies to sustain high Ebitda margins, says

Abhijeet Bora of Sharekhan. IGL, led by growth in the national capital region (NCR), use of CNG for inter-city travel, increased conversion to CNG on account of BS-VI implementation, and contribution from newer geographies, is seen reporting good growth, which analysts at Motilal Oswal peg at 10-11 per cent.

The higher volume growth for Gujarat Gas is seen driven by strong industrial sector

demand and supplies. For FY20 and FY21, analysts at IIFL expect Gujarat Gas to register 44 and 15 per cent year-on-year volume growth.

This is due to sustained off-take from the Morbi cluster (given the ban on coal usage); growth in sales to other smaller industrial units upon expansion of its network and higher off-take from existing players; and stable growth in CNG and domestic PNG sales.

Though MGL may not have won new geographical areas, the management has, nevertheless, guided for 5-6 per cent volume growth.

Rising CNG and PNG demand in Mumbai and pipeline expansions in Maharashtra are likely to drive growth. For MGL, the overhang of stake sale is also over with Shell India having already sold its stake.

As volume growth remains firm, the soft natural gas prices continue driving operating performance and profits for these companies. Foreign brokerages have also upgraded earnings for Gujarat Gas by 13-15 per cent and for MGL by 7-11 per cent for FY20 and FY21.

IGL, too, is amongst top mid-cap picks of some foreign brokerages.

Benchmark indices begin new year on a flat note

The benchmark indices started the New Year with a slight gain, as the Sensex rose 52.28 points or 0.13 per cent to close at 41,306.02 on Wednesday. Financials, IT, FMCG, and power stocks advanced.

The broader Nifty closed 14.05 points or 0.12 per cent higher at 12,182.5, with 23 constituents ending in the green.

"Indian markets started the new year on a positive note, without much cues on the global front, as markets remained closed. Sentiments

remained positive on the report that India's current account deficit narrowed to 0.9 per cent of the GDP, or \$6.3 billion, in the September quarter, on account of lower trade deficit," said Narendra Solanki, head of fundamental research (investment services) and AVP (equity research), Anand Rathi Shares & Stock Brokers.

In the broader market, the BSE MidCap and SmallCap outperformed the benchmark indices, rallying up to 0.64 per cent. PFI

THE COMPASS

Page Industries' near-term outlook not comforting

Delayed winter, higher input costs, high base may hurt growth

SHREEPAD SAUTE

The Page Industries stock has risen by 7.5 per cent over the last one month, outpacing the Sensex.

The latter has gained 1.3 per cent during the same period. The recent reaffirmation of a good credit rating (AA+/A1+) by ICRA and expectations of higher growth of high-margin winter wear in December quarter have turned investor sentiment positive towards Page.

However, these expectations may be realised at least in the December quarter, and may lead to some correction in the stock price.

According to an analyst at a domestic broking house, "Page will continue reporting muted volume growth in the

December quarter. Sustained demand pressure and delayed winter are likely to have hurt its volumes. This could wash off the recent gains by the stock."

Page is the Indian maker of popular premium inner-wear brand Jockey. The high-margin winter wear products have an approximate share of 20-25 per cent in the company's overall business, according to estimates of some analysts.

The recent price hikes in select products, taken in November and December, as well as the high base in the December 2018 quarter, when volumes grew 12 per cent, will also have a bearing on volume growth figures of the recently concluded quarter. While winter has picked


up, growing volumes may not be easy in the challenging demand environment.

In fact, higher competitive intensity could restrict Page's volume growth even beyond the December quarter. According to Anand Rathi's report: "While competition wasn't credible in the past, the newer competition (Van Heusen from Aditya Birla Fashion & Retail, US Polo Innerwear by Arvind Fashions) is more credible, has sound brand equity and better distribution." Thus, how the company navigates this in the coming quarters would be crucial.

Additionally, prices of key raw materials are still higher, even after the recent correction. This may keep hurting the gross margin, say ana-

lysts. In the September quarter, while a lower base, retail schemes, and higher sales incentives by the company had led to volume growth of around 9 per cent, higher raw material cost had resulted in a 145-basis-point year-on-year contraction in Ebitda (earnings before interest, tax, depreciation and amortisation) margin to 19.2 per cent.

Investors should await the management's commentary on volume and margin fronts post December quarter earnings, even as Page's long-term growth potential appears healthy. The stock, which had halved over a year's period ending August 2019 and has seen some rebound thereafter, is still trading at a rich 48 times FY21 estimated earnings.



Improving mix to keep growth intact for Narayana

Return ratios to double over the FY19-22 period

RAM PRASAD SAHU

With a jump of 61 per cent, Narayana Hrudayalaya was the best-performing hospital stock last year.

Given the 6 per cent addition to those gains on Wednesday, the rally seems to have more steam left. Investors have been switching from large generic pharma companies (which have been pegged back by compliance issues) to health care service providers, in search of higher returns.

Further, completion of capital expenditure programme, asset light expansions and improving return ratios have led to the switch. For Narayana, in addition to the strong operating performance over the last five quarters, there are additional triggers.

The losses at new hospitals at Gurugram, Mumbai and Dharamshila are expected to come down going ahead. This is due to higher occupancies, scaling up of operations and expansion into new categories.



The three hospitals posted a ₹70 crore loss at the operating profit level in FY19. With utilisation levels improving, the hospitals are expected to turn positive at the operating profit level over the next two years.

The growth in its multi-specialty hospital at the Cayman Islands is another area investors are keeping an eye on.


The hospital targets North American patients given the price difference of treatment at its unit and in the US. The hospital posted a 58 per

cent growth in operating profit led by higher utilisation and improving mix. Analysts at Elara Capital believe that the addition of an oncology unit will drive the revenues and profits of this overseas venture.

The Cayman subsidiary accounts for a quarter of the consolidated operating profit of the company.

Core growth is expected to continue at its Bengaluru unit where it is adding complex procedures and programmes to boost revenues and improve its mix. Cost control measures and higher share of overseas patients should also help. The company is enhancing its capacity and investing in equipment to offer a wider range of services at its other centres across India.

Analysts at ICICI Securities believe that the company's focus on affordable care and asset right model will improve average realisations and double its return ratios over the FY19-22 period. Given the sharp run up in the stock, investors can look at the same on dips.



Recommendations of the Committee of Independent Directors (IDC) on the Open Offer to the Shareholders of the Federal-Mogul Goetze (India) Limited ("Target Company") under Regulation 26(7) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, for acquisition of up to 13,916,676 fully paid-up equity shares of face value of Rs. 10/- each, representing approximately 25.02% of the total equity share capital ("Equity Shares") of Target Company on a fully diluted basis, from the eligible Equity Shareholders ("Eligible Shareholders"), by Tenneco Inc. ("Acquirer") together with Icahn Enterprises LP ("IEP"), American Entertainment Properties Corp. ("AEP") and IEH FMGI Holdings LLC ("IEH") (collectively known as "PACs") ("Offer/Open Offer").	
1. Date	Wednesday, January 01, 2020
2. Name of the Target Company (TC)	Federal-Mogul Goetze (India) Limited
3. Details of the Offer pertaining to TC	The Offer is a mandatory offer for acquisition up to 13,916,676 fully paid-up Equity Shares of face value of Rs. 10/- each, representing approximately 25.02% of the fully diluted voting Equity Share capital of Federal-Mogul Goetze (India) Limited (the "Target Company") from the public shareholders of the Target Company by Tenneco Inc. ("Acquirer") payable in cash pursuant to Regulation 3(2) of SEBI (SAST) Regulations, 2011. The Offer has been made pursuant to the Regulation 3, Regulation 4 read with Regulation 5(1) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011, in light of the indirect acquisition of voting rights in and control by the Acquirer over the Target Company in terms of the definitive agreement dated 10th April, 2018 between the Acquirer, Icahn Enterprises L.P., American Entertainment Properties Corp. and Federal-Mogul LLC to acquire the ownership of the Target Company. The Corrigendum 2 to the Detailed Public Statement was published by CKP Financial Services Private Limited, the "Manager to the Offer" on December 27, 2019, for and on behalf of Acquirer and PACs announcing their intention to acquire up to 13,916,676 fully paid-up equity shares of face value of Rs. 10/- each representing approximately 25.02% of the fully diluted voting equity share capital of the Target Company from the public shareholders at a price of Rs.667.50/- per share including interest component
4. Name(s) of the acquirer and PAC with the acquirer	Tenneco Inc. (Acquirer), Icahn Enterprises L.P. (PAC 1), American Entertainment Properties Corp. (PAC 2) and IEH FMGI Holdings LLC (PAC 3)
5. Name of the Manager to the offer	M/s CKP Financial Services Private Limited Delsol, 1st Floor, CTS No. C/597 & C/598, D'Monte Park Road, Near Bandra Gymkhana, Bandra (West), Mumbai-400050, India Tel: +91 9322997964, E-mail: fmgioffoffer@ckpfinancialservices.com Contact Person: Mr. Brijesh Parekh
6. Members of the Committee of Independent Directors (Please indicate the chairperson of the Committee separately)	1. Mr. K. N. Subramaniam 2. Mr. Mukul Gupta Mr. K. N. Subramaniam is the Chairman of the Committee.
7. IDC Member's relationship with the TC (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any	Both of the abovementioned Directors are Non-Executive and Independent Directors. Neither of them: a. hold any Shares in the Target Company, b. hold any relationship with the Target Company's other directors or c. has any contract with the Target Company except contract to act as Independent Directors of the Target Company.
8. Trading in the Equity shares/other securities of the TC by IDC Members	None of the IDC members have traded in Equity Shares of Target Company preceding 12 months.
9. IDC Member's relationship with the acquirer (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any	None of the members of the IDC have any contracts / relationships with the Acquirer.
10. Trading in the Equity shares/other securities of the acquirer by IDC Members	Not Applicable. The IDC members have not traded in the Equity Shares/other securities of the Acquirer.
11. Recommendation on the Open offer, as to whether the offer is fair and reasonable	The Hon'ble Supreme Court vide its Order dated December 16, 2019 has upheld the valuation of shares at Rs. 608.46/- together with interest pursuant to the applicable provisions of SEBI (SAST) Regulations, 2011. The members of the IDC believe that the Open Offer made to the shareholders of Target Company at a price of Rs. 667.50/- (including interest component of Rs. 59.04) per fully paid Equity Share of Rs. 10/- each is fair and reasonable and the Open Offer is in conformity with provisions of SEBI (SAST) Regulations, 2011. Keeping in view the above facts, IDC is of the view that the price of this Open Offer is fair and reasonable. However, the shareholders should independently evaluate the Offer and take informed decision in the matter.
12. Summary of reasons for recommendation (IDC may also invite attention to any other place, e.g. company's website, where its detailed recommendations along with written advice of the independent adviser, if any can be seen by the shareholder)	IDC has evaluated the Public Announcement dated April 11, 2018, Detailed Public Statement (DPS) dated October 09, 2018, Draft Letter of Offer dated October 16, 2018, Corrigendum 1 to the DPS dated June 29, 2019, Corrigendum 2 to the DPS dated December 27, 2019 and Letter of Offer dated December 30, 2019 including the Valuation Report dated April 03, 2019, provided by Haribhakti & Co. LLP, Chartered Accountants. The IDC has taken into consideration the following for making its recommendations: a. The Securities Exchange Board of India communication dated July 4, 2019, together with the Observation letter of SEBI. b. The Order of the Securities Appellate Tribunal, Mumbai, in Appeal nos. 352 and 359 of 2019, Appeal Lodging Nos. 458 and 459 of 2019 and Miscellaneous Application no. 418 of 2019, dated November 07, 2019. c. The Order of the Supreme Court of India, in Civil Appeal nos. 9225/9226 of 2019 dated December 16, 2019. Keeping in view the above facts, IDC is of the view that the price of this Open Offer is fair and reasonable. However, the shareholders should independently evaluate the Offer and take informed decision in the matter.
13. Details of Independent Advisors, if any.	Nil
14. Any other matter(s) to be highlighted	Nil

Note: The above stated information are only indicative in nature and contains minimum details with regard to the recommendations of IDC. IDC may include any other information under the respective headings which, in its view is relevant for shareholders of the Target Company for making an informed decision with respect to the open offer. To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under the Takeover Code.

For and on behalf of Committee of Independent Directors of Federal-Mogul Goetze (India) Limited
sd/-
Place: Gurugram
Date: January 01, 2020
Mr. K. N. Subramaniam
Chairman-Committee of Independent Directors

आर्थिक मंदी से प्रभावित होगा राज्यों का राजस्व

अभिजित लेले
मुंबई, 1 जनवरी

चालू वित्त वर्ष 2020 में राज्यों की राजकोषीय स्थिति पर दबाव रहने की संभावना है। इसकी वजह आर्थिक मंदी, कर राजस्व में कमी और ज्यादा व्यय है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के मुताबिक ऐसे में उनका राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत पर पहुंच सकता है, जो बजट में 2.6 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था।

कुल मिलाकर राज्यों ने वित्त वर्ष 2020 के लिए 30.97 लाख करोड़ रुपये का अनुमान लगाया था। वित्त वर्ष 19 का पुनरीक्षित अनुमान (10.2 प्रतिशत वृद्धि के साथ) 28.10 लाख करोड़ रुपये था।

राज्यों के बजट उनकी विधानसभाओं में पेश किए गए जैसा केंद्र करती है। राज्यों ने वित्तवर्ष 2020 में नॉमिनल जीडीपी में 11 प्रतिशत बढ़ाव का अनुमान लगाया था। लेकिन वित्त वर्ष 202 की पहली छमाही में नॉमिनल वृद्धि दर 7 प्रतिशत थी।

कर राजस्व में वृद्धि नॉमिनल जीडीपी वृद्धि के समानांतर चलता है। रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि ऐसे में राज्य सरकारों के कर संग्रह में बजट अनुमान की तुलना में उल्लेखनीय कमी आने

की संभावना है। चालू वित्त वर्ष में कर राजस्व में वृद्धि 11.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था और इस हिसाब से 22.15 लाख करोड़ रुपये राजस्व आने की संभावना थी। राज्यों का कर संग्रह 3 अलग अलग राजस्वों के हिसाब से घटा है - राज्य का अपना कर राजस्व (एसओटीआर, राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी), केंद्रीय कर में हिस्सेदारी (केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) और अनुदान (जीएसटी मुआवजा)।

वित्त वर्ष 2020 में पिछले साल की तुलना में केंद्र के करों में राज्यों की हिस्सेदारी 13.98 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया गया था। बहरहाल सालाना आधार पर वित्त वर्ष 2020 (अप्रैल-अक्टूबर) में सिर्फ 2.7 प्रतिशत बढ़ा है। इसकी वजह से राज्यों के राजकोषीय घाटे को लेकर दबाव बढ़ा है। राज्यों ने केंद्र के कर में से 8.5 लाख करोड़ रुपये मिलने का अनुमान लगाया था। लेकिन केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020 में राज्यों का हिस्सा 8.1 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया है।

यहां तक कि 8.1 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य हासिल करने के लिए वित्त वर्ष 2020 की शेष अवधि में केंद्रीय करों का संग्रह 15.1 प्रतिशत बढ़ाना होगा, लेकिन ऐसा होने की संभावना कम ही नजर आ रही है।

घटा ईरान से कच्चे तेल का आयात पश्चिम एशिया के अलावा अन्य तेल उत्पादक देशों से आयात बढ़ रहा भारत

शाइन जैकब
नई दिल्ली, 1 जनवरी

चालू वित्त वर्ष के दौरान ईरान से कच्चे तेल का आयात घटकर महज 17 लाख टन रह गया है। ईरान ने 2018-19 में 239 लाख टन कच्चा तेल भारत भेजा था और वह भारत का तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था। मई के पहले सप्ताह से इस पश्चिम एशियाई देश से भारत ने कच्चे तेल का आयात रोक दिया था।

बिजनेस स्टैंडर्ड द्वारा संकलित आंकड़ों के मुताबिक अगर अमेरिका 2020 की शुरुआत में ईरान से प्रतिबंध हटा नहीं लेता है तो यह पिछले 12 साल में यह ईरान से कच्चे तेल का सबसे कम आयात होगा। ईरान से तेल की कम आवक की भरपाई अमेरिका से आयात के माध्यम से हो रहा है। भारत ने अमेरिका से 2017-18 में 19 लाख टन आयात किया था, जो 2018-19 में बढ़कर 62 लाख टन हो गया। दिलचस्प है कि भारत ने चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीने में अमेरिका से 54 लाख टन कच्चे तेल का आयात किया है, जबकि अमेरिका से आयात अभी हाल में 2017-18 से ही शुरू हुआ है।

तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) के पूर्व चेयरमैन आरएस शर्मा ने कहा, 'यह ऐतिहासिक निचला स्तर है, लेकिन पहले की स्थिति के विपरीत यह भारत के लिए चिंता का विषय नहीं है। हमने अपने बास्केट का

वर्ष	मात्रा लाख टन में
2008-09	213
2009-10	212
2010-11	185
2011-12	181.1
2012-13	134
2013-14	110
2014-15	109.5
2015-16	127
2016-17	272
2017-18	226
2018-19	239
2019-20*	17

*अप्रैल से सितंबर तक
स्रोत: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय व उद्योग के सूत्र

विविधीकरण किया है। इसके पश्चिम एशिया पर हमारी निर्भरता कम हुई है। इराक और नाज्जीरिया जैसे देशों से भी आयात बढ़ा है।' इस साल सितंबर तक इराक भारत में सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता था और उसने 260 लाख टन आपूर्ति की थी। 207 लाख टन आपूर्ति कर सऊदी अरब दूसरे स्थान पर रहा।

एक सरकारी कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारत की कंपनियों ने 4 मई से ईरान से आयात पूरी तरह रोक दिया है और वह ज्यादा विविधीकृत बास्केट पर



विचार कर रहा है। उन्होंने कहा, 'ये आंकड़े वित्त वर्ष के पहले 2 महीने पर लागू होंगे।' 2019-20 में भारत के कच्चे तेल बास्केट में हिस्सेदारी वाले अन्य देशों में नाज्जीरिया (99 लाख टन), संयुक्त अरब अमीरात (89 लाख टन), कुवैत (57 लाख टन) और मेक्सिको (41 लाख टन) शामिल हैं। अगर मौजूदा 649 लाख टन के आंकड़ों को देखें तो इस साल भारत की विदेश एशिया पर निर्भरता कम हो सकती है।

भारत ने इसके पहले वित्त वर्ष में 2265 लाख टन कच्चे तेल का

आयात किया, जो 2017-18 के 2204 लाख टन की तुलना में 2.7 प्रतिशत ज्यादा है। देश के कच्चे आयात का बिल इस अवधि के दौरान 2017-28 के 87.8 अरब से बढ़कर 111.9 अरब डॉलर हो गया। दिलचस्प है कि इस साल अप्रैल से नवंबर के दौरान कच्चे तेल का कुल आयात 0.7 प्रतिशत घटकर 1499 लाख टन रह गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 1510 लाख टन था। इस अवधि के दौरान आयात बिल 11.7 प्रतिशत कम होकर 69.5 अरब डॉलर हो गया, जो 2018-19 के अप्रैल-नवंबर अवधि के दौरान 78.6 अरब डॉलर था।

इसके बावजूद कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता चालू वित्त वर्ष के पहले 8 महीने में बढ़कर 84.7 प्रतिशत रही, जो 2018-19 की समान अवधि में 83.3 प्रतिशत थी।

ईरान से आने वाले कच्चे तेल का ज्यादा हिस्सा 2018-19 तक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) और एस्सारा ऑयल लिमिटेड (ईओएल) करती थी। भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने 23 दिसंबर को ईरान के विदेश मंत्री जावेद जरीफ से मुलाकात की थी, लेकिन उसमें बातचीत का अहम मसला चाबहार बंदरगाह था।

बीएसएनएल की संपत्ति बेचने के लिए समूह बना

मेधा मनचंदा
नई दिल्ली, 1 जनवरी

केंद्र सरकार ने नकदी के संकट से जूझ रही कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की संपत्तियां बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए अंतरमंत्रालय समूह का गठन किया गया है। यह समूह कंपनी की रियल एस्टेट को चिह्नित करने व उन्हें बेचने की प्रारंभिकता तय करेगा। कंपनी को आर्थिक संकट की वजह से कर्मचारियों को वेतन देने में दिक्कत हो रही है और अब तक नवंबर महीने के वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है।

इस मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि इस समूह में वरिष्ठ एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम), दूरसंचार और बीएसएनएल के अधिकारी शामिल होंगे। कंपनी की 40 कीमती जमीनों को चिह्नित किया गया है, जिनकी कीमत करीब 10,000 करोड़ रुपये होगी। इन्हें बेचने से कंपनी को बिलेंस शीट दुरुस्त करने में मदद मिलेगी और 4जी नेटवर्क सेवा शुरू करने के लिए उसे धन मिल सकेगा, जो 2020 की दूसरी छमाही में शुरू होने की संभावना है। अगले 3 साल में कंपनी की संपत्तियों से 37,500 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है।

अक्टूबर में केंद्र सरकार ने बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए 69,000 करोड़ रुपये के पुनर्र्धार पैकेज को मंजूरी दी थी।

इस पैकेज में घाटे में चल रही दोनों फॉर्मों का विलय, उनकी संपत्ति बेचकर धन जुटाना और कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पैकेज देना, जिससे कि दोनों इकाइयों को अगले 2 साल में मुनाफे में लाया जा सके।

इस बचाव पैकेज में 4जी स्पेक्ट्रम की खरीद के लिए 20,140 करोड़ रुपये, स्पेक्ट्रम आवंटन पर जीएसटी भुगतान के लिए 3,674 करोड़ रुपये, कंपनी द्वारा 15,000 करोड़ रुपये का सेविंग गारंटी पर कर्ज लेने और सरकार की ओर से 17,160 करोड़ रुपये का वित्तपोषण शामिल है। सेविंग बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया पुनर्गठित कर्ज व अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए होगी। यह बॉन्ड पूरी तरह से पीएसयू का होगा। हाल में घोषित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति 31 जनवरी को सरकारी कंपनी बीएसएनएल और एमटीएनएल के 92,000 से ज्यादा कर्मचारियों ने स्वीकार कर लिया है। बीएसएनएल के करीब 1 लाख कर्मचारी वीआरएस के पात्र हैं, जिसमें कुल करीब 1.5 लाख कर्मचारी हैं। मौजूदा योजना में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति 31 जनवरी 2020 है। किसी पात्र कर्मचारी को दी जाने वाली राशि उस कर्मचारी के पूरे हुए हर साल के 35 दिन के वेतन के बराबर राशि और शेष बचे साल के हर साल के वेतन के 25 दिन के बराबर वेतन शामिल है।

एमटीएनएल के पिछले 10 साल में 9 साल घाटा हुआ है और कंपनी 2010 से घाटे में चल रही है। दोनों कंपनियों पर कर्ज 40,000 करोड़ रुपये है।

Recommendations of the Committee of Independent Directors (IDC) on the Open Offer to the Shareholders of the Federal-Mogul Goetze (India) Limited ("Target Company") under Regulation 26(7) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, for acquisition of up to 13,916,676 fully paid-up equity shares of face value of Rs. 10/- each, representing approximately 25.02% of the total equity share capital ("Equity Shares") of Target Company on a fully diluted basis, from the eligible Equity Shareholders ("Eligible Shareholders"), by Tenneco Inc. ("Acquirer") together with Icahn Enterprises LP ("IEP"), American Entertainment Properties Corp. ("AEP") and IEH FMGI Holdings LLC ("IEH") (collectively known as "PACs") ("Offer/Open Offer").

1.	Date	Wednesday, January 01, 2020
2.	Name of the Target Company (TC)	Federal-Mogul Goetze (India) Limited
3.	Details of the Offer pertaining to TC	The Offer is a mandatory offer for acquisition up to 13,916,676 fully paid-up Equity Shares of face value of Rs. 10/- each, representing approximately 25.02% of the fully diluted voting Equity Share capital of Federal-Mogul Goetze (India) Limited (the "Target Company") from the public shareholders of the Target Company by Tenneco Inc. ("Acquirer") payable in cash pursuant to Regulation 3(2) of SEBI (SAST) Regulations, 2011. The Offer has been made pursuant to the Regulation 3, Regulation 4 read with Regulation 5(1) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011, in light of the indirect acquisition of voting rights in and control by the Acquirer over the Target Company in terms of the definitive agreement dated 10th April, 2018 between the Acquirer, Icahn Enterprises LP, American Entertainment Properties Corp. and Federal-Mogul LLC to acquire the ownership of the Target Company. The Corrigendum 2 to the Detailed Public Statement was published by CKP Financial Services Private Limited, the "Manager to the Offer" on December 27, 2019, for and on behalf of Acquirer and PACs announcing their intention to acquire up to 13,916,676 fully paid-up equity shares of face value of Rs. 10/- each representing approximately 25.02% of the fully diluted voting equity share capital of the Target Company from the public shareholders at a price of Rs.667.50/- per share including interest component.
4.	Name(s) of the acquirer and PAC with the acquirer	Tenneco Inc. (Acquirer), Icahn Enterprises LP (PAC 1), American Entertainment Properties Corp. (PAC 2) and IEH FMGI Holdings LLC (PAC 3)
5.	Name of the Manager to the offer	M/s CKP Financial Services Private Limited, Delsol, 1st Floor, CTS No. C/597 & C/598, D'Monte Park Road, Near Bandra Gymkhana, Bandra (West), Mumbai-400050, India Tel: +91 9322997964, E-mail: fmgi.offenoffer@ckpfinancialservices.com Contact Person: Mr. Brijesh Parekh
6.	Members of the Committee of Independent Directors (Please indicate the chairperson of the Committee separately)	1. Mr. K. N. Subramaniam 2. Mr. Mukul Gupta Mr. K. N. Subramaniam is the Chairman of the Committee.
7.	IDC Member's relationship with the TC (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any	Both of the abovementioned Directors are Non-Executive and Independent Directors. Neither of them: a. hold any Shares in the Target Company, b. hold any relation with the Target Company's other directors or c. has any contract with the Target Company except contract to act as Independent Directors of the Target Company.
8.	Trading in the Equity shares/other securities of the TC by IDC Members	None of the IDC members have traded in Equity Shares of Target Company preceding 12 months.
9.	IDC Member's relationship with the acquirer (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any.	None of the members of the IDC have any contracts / relationships with the Acquirer.
10.	Trading in the Equity shares/other securities of the acquirer by IDC Members	Not Applicable. The IDC members have not traded in the Equity Shares/other securities of the Acquirer.
11.	Recommendation on the Open offer, as to whether the offer is fair and reasonable	The Hon'ble Supreme Court vide its Order dated December 16, 2019 has upheld the valuation of shares at Rs. 608.46/- together with interest pursuant to the applicable provisions of SEBI (SAST) Regulations, 2011. The members of the IDC believe that the Open Offer made to the shareholders of Target Company at a price of Rs. 667.50/- (including interest component of Rs. 59.04) per fully paid Equity Share of Rs. 10/- each is fair and reasonable and the Open Offer is in conformity with provisions of SEBI (SAST) Regulations, 2011.
12.	Summary of reasons for recommendation (IDC may also invite attention to any other place, e.g. company's website, where its detailed recommendations along with written advice of the independent adviser, if any can be seen by the shareholder)	IDC has evaluated the Public Announcement dated April 11, 2018, Detailed Public Statement (DPS) dated October 09, 2018, Draft Letter of Offer dated October 16, 2018, Corrigendum 1 to the DPS dated June 29, 2019, Corrigendum 2 to the DPS dated December 27, 2019 and Letter of Offer dated December 30, 2019 including the Valuation Report dated April 03, 2019, provided by Haribhakti & Co. LLP, Chartered Accountants. The IDC has taken into consideration the following for making its recommendations: a. The Securities Exchange Board of India communication dated July 4, 2019, together with the Observation letter of SEBI. b. The Order of the Securities Appellate Tribunal, Mumbai, in Appeal nos. 352 and 359 of 2019, Appeal Lodging Nos. 458 and 459 of 2019 and Miscellaneous Application no. 418 of 2019, dated November 07, 2019. c. The Order of the Supreme Court of India, in Civil Appeal nos. 9225/9226 of 2019 dated December 16, 2019. Keeping in view the above facts, IDC is of the view that the price of this Open Offer is fair and reasonable. However, the shareholders should independently evaluate the Offer and take informed decision in the matter.
13.	Details of Independent Advisors, if any.	Nil
14.	Any other matter(s) to be highlighted	Nil

Note: The above stated information are only indicative in nature and contains minimum details with regard to the recommendations of IDC. IDC may include any other information under the respective headings which, in its view is relevant for shareholders of the Target Company for making an informed decision with respect to the open offer.

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under the Takeover Code.

For and on behalf of Committee of Independent Directors of Federal-Mogul Goetze (India) Limited
sd/-
Mr. K. N. Subramaniam
Chairman-Committee of Independent Directors

Place: Gurugram
Date: January 01, 2020

सरकार को नॉमिनल जीडीपी में सुधार की आस

अरुण रायचौधरी
नई दिल्ली, 1 जनवरी

केंद्र सरकार को उम्मीद है कि 2019-20 के अपने संशोधित अनुमान के मुकाबले 2020-21 के लिए नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि 10.5 फीसदी रहेगी। यह आंकड़ा नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन रिपोर्ट में दिया गया है।

रिपोर्ट को वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया है और इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को जारी किया। इसमें 2020-21 के लिए नॉमिनल जीडीपी 227 लाख करोड़ रुपये का रहने का अनुमान बताया गया है। जबकि 2019-20 के लिए अनुमान 205.37 लाख करोड़ रुपये नजर आ रहा है जबकि इससे पहले के बजट अनुमान में यह 211 लाख करोड़ रुपये रहा था। रिपोर्ट में 2024-25 के लिए नॉमिनल जीडीपी 365.5 लाख

वित्त वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
बुनियादी ढांचा*	3.54	3.77	4.58	5.56	6.76	8.21	9.97
बजट मदद	1.39	1.53	1.86	2.25	2.74	3.33	4.04
जीडीपी प्रतिशत**	0.73	0.74	0.82	0.89	0.96	1.03	1.11
नॉमिनल जीडीपी	190.1	205.37	227.0	254.27	286.42	323.25	365.49

*केंद्र सरकार का कुल पूंजी आउटपुट **जीडीपी के प्रतिशत में बजट समर्थन
सभी आंकड़े लाख करोड़ रुपये में, जब तक विशेष रूप से उल्लेख न हो
वित्त वर्ष 19 के आंकड़े पुनरीक्षित अनुमान हैं, वित्त वर्ष 2020 के आंकड़े हाल के अनुमान, अन्य वर्षों का अनुमानित आंकड़ा
स्रोत: नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन रिपोर्ट



करोड़ रुपये रहने का अनुमान बताया गया है। इस स्तर तक पहुंचने के लिए 2020-21 से 2024-25 तक औसत नॉमिनल जीडीपी की वृद्धि दर 12.2 फीसदी सालाना रखने की जरूरत होगी। दरअसल, 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए गणितीय अनुमान से नॉमिनल जीडीपी की संभावित वृद्धि क्रमशः 12.6 फीसदी, 12.8 फीसदी और 13 फीसदी है। यदि इन वर्षों में औसतन 4 फीसदी की महंगाई दर

का भी अनुमान लगाएं तो वास्तविक जीडीपी की वृद्धि 8 फीसदी की उच्च स्तर पर हो सकती है जो कि काफी महत्वाकांक्षी नजर आता है। पाइपलाइन में 18 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में 23 क्षेत्रों की परियोजनाओं को चिह्नित किया गया है फिलहाल 205.37 लाख करोड़ रुपये नजर आ रहा है जबकि इससे पहले के बजट अनुमान में यह 211 लाख करोड़ रुपये रहा था।

परियोजनाओं में से 39 फीसदी का क्रियान्वयन केंद्र और राज्यों द्वारा किया जाएगा जबकि 22 फीसदी परियोजनाएं निजी क्षेत्र पूरा करेंगे। सरकार उम्मीद कर रही है कि 2024-25 तक निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 30 फीसदी तक हो जाएगी। पाइपलाइन में केंद्र, राज्यों, निजी क्षेत्र, सरकारी कंपनियों के साथ साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल की पुरानी और नई परियोजनाएं शामिल हैं। रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक

कुछ 42.7 लाख करोड़ रुपये (43 फीसदी) की परियोजनाएं क्रियान्वयन के अंतर्गत हैं, 32.7 लाख करोड़ रुपये (करीब 33 फीसदी) की परियोजनाएं कतार में हैं और 19.1 लाख करोड़ रुपये (करीब 19 फीसदी) की परियोजनाओं पर काम हो रहा है। पहचान किए गए क्षेत्रों में परंपरागत बिजली और अक्षय ऊर्जा, रेलवे, सड़क, शहरी विकास, सिंचाई, उड्डयन, शिक्षा और स्वास्थ्य है।

बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में 51 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

भाषा
नई दिल्ली, 1 जनवरी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक ऋण की एक कथित धोखाधड़ी के मामले में विशाखापत्तनम निवासी एक व्यक्ति व उसके परिवार की 51 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की है। एजेंसी ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। ईडी ने कहा कि कुर्क की गई संपत्तियां कुमार पप्पू सिंह, उसके परिवार तथा उनकी कंपनियों से जुड़ी हैं। इनमें मछली पालन टंकियां, पॉल्ट्री फॉर्म और बैंक बिलेंस शामिल हैं। ईडी ने कहा कि

यह मामला मछलीपालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की धोखाधड़ी से लाभ उठाने के एक आरोप में आईडीबीआई बैंक के अधिकारियों, कुछ ऋण प्रदाताओं तथा अन्य के खिलाफ सीबीआई की दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है। ईडी ने कहा कि सिंह ने 87 कर्जदारों के नाम पर किसान क्रेडिट कार्ड ऋण लिया। इन लोगों में उसके परिजन, कर्मचारी व अन्य परिचित लोग शामिल हैं। एजेंसी ने कहा, 'ऋण की राशि को अवैध तरीके से कर्ज लेने वालों के खातों से सिंह व उसकी कंपनियों के खातों में हस्तांतरित किया गया।'

बीएस सूडोकू 3628

वित्त वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
वित्त वर्ष	3.54	3.77	4.58	5.56	6.76	8.21	9.97
बजट मदद	1.39	1.53	1.86	2.25	2.74	3.33	4.04
जीडीपी प्रतिशत**	0.73	0.74	0.82	0.89	0.96	1.03	1.11
नॉमिनल जीडीपी	190.1	205.37	227.0	254.27	286.42	323.25	365.49

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

उत्तर प्रदेश	राजस्थान	पंजाब
कानपुर गेहूँ लूज 2185/2190, जो 1770/1780, चावल मसूरी 2250/2300, चावल मोटा 2200/2250, सरसों 4650/4700, तिल सफेद 9600/9800, सोया (टीन) 1575/1625, तेल सरसों कच्ची घानी वेट पेड (टीन) 1650/1700, लखनऊ गेहूँ दड़ा 2210/2220, गेहूँ शरबती 2900/3000, चावल शरबती सेला 3750/3800, स्टौम 4200/4300, लालमती 3300/3400, चावल (सोना) 2950/3000 चंडौरी (प्रति किलो): मैथवा ऑयल 1450, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1530, फ्लैक 1465, डीएमओ 1062, टटपीन लैस बोल्ड 1560 मुजफ्फरनगर गुड़ (40 किलो): लड्डू 1350/1410, खुरपा 1250/1290, चाकू 1250/1330, रसकट 1020/1040, शक्कर 1380/1410, चीनी मिल डिली. (विचं.)	(जीएसटी अतिरिक्त): खत्तौली 3385, शिडोरा 3255, बुंदकी 3290, सपुड़ गुड़-चीनी: चीनी हाजिर 3550/3650, गुड़ (प्रति 40 किलो) बाल्टी 1300/1390, तिहहन: सरसों (42 प्रतिशत कंड़ी.) 4650, खल: सरसों 2350/2450, बिजौला 2550/2700, चना फिलका 2100/2150, जयपुर अनाज: चावल डीबी 5600/5700, गेहूँ (मिल) 2240/2250, मक्की 2250/2275, बाजरा 1940/1945, जो 1800/1825, ग्वार लूज 3900/3950, ज्वार केरलापीड 2400/2500, तेल-तिलहन: सरसों(मिल पहेल) 4890/4900, श्रीगंगानगर गेहूँ (डेरी) 2100/2125, ग्वार 3950/4000, जो 2190/2200, जोधपुर गेहूँ 2100/2150, जो 1800/1825, पोपकॉन मक्की 4600/4700, ग्वार	डिलीवरी (ऑलपेड) 4150/4200, ग्वाराम 7800/7900, बाजरा (गुजरात) 1990/2000, बाजरा (जयपुर) 2000/2010, चना 4300/4400, काबली चना 5000/6000, मूंग 6400/6500, रवणा जीएसटी अतिरिक्त (प्रति विचं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्याईं)131, राइसब्रान (अखाद्य) 128, खल सरसों 2100, डीओसी: राइसब्रान वैंच सफेद 1300, लाल 1300, कंट्यून्डस 1350, लुधियाना दाल-दलहन: राजमां चित्रा 7500/8500, अरहर दाल 7500/8000, उड़द साबुत 7600/8600, उड़द घोया 9000/10000, फिलका 8800/9500, दाल मसूर 5900/6200, चनादाल 5400/5600, अमृतसर दाल: बासमती (1121 नं.) स्टीम 6000/6100, सेला 5500/5550, शरबती साधारण सेला 3700/3800, शरबती

उत्तर प्रदेश	राजस्थान	पंजाब
कानाल गेहूँ दड़ा 2230/2240, वासमती चावल 6500/6600, धान 1121 नं. 2900/2925, पूसा 1509 धान 2600/2650, शरबती धान 2150/2200, सेला (1509 नं.) चावल 5150/5250, स्टीम 6000/6100, रिसार ग्वार 39000/3950, जो 1775/1780, सरसों 4350/4400, मूंग 6500/6700, जौड़ जीएसटी अतिरिक्त: गेहूँ 2150/2180, आटा (प्रति 44 किलो) 1100/1110, मैदा 1190/1200, देशी ची (एक ली/जार) 380/480, रिफाइनड (टीन) 1510/1540, भिवानी जीएसटी अतिरिक्त: सरसों 4450/45		

कोटा के अस्पताल में नौ और शिशुओं की मौत

इस महीने अस्पताल में मरने वालों की संख्या सौ हुई

कोटा (राजस्थान), 1 जनवरी (भाषा)।

राजस्थान के कोटा जिले के जेके लोन अस्पताल में दिसंबर के अंतिम दो दिन में कम से कम नौ और शिशुओं की मौत हो गई। इसके साथ ही इस महीने अस्पताल में मरने वाले शिशुओं की संख्या सौ हो गई है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

पिछली 23-24 दिसंबर को 48 घंटे के भीतर अस्पताल में 10 शिशुओं की मौत को लेकर काफी हंगामा हुआ था। हालांकि, अस्पताल के अधिकारियों ने कहा था कि यहां 2018 में 1,005 शिशुओं की मौत हुई थी और 2019 में उससे कम मौत हुई है। अस्पताल के अधीक्षक के अनुसार

अधिकतर शिशुओं की मौत मुख्यतः जन्म के समय कम वजन के कारण हुई। मंगलवार को लॉक्रेट चटर्जी, कांता कर्दम और जयकौर मीणा समेत भाजपा सांसदों के एक संसदीय दल ने अस्पताल का दौरा कर उसकी हालत पर चिंता जताई थी। दल ने कहा कि एक ही बेड पर दो-तीन बच्चे थे और अस्पताल में पर्याप्त नर्सों भी नहीं हैं। इससे पहले राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राज्य की कांग्रेस सरकार को नोटिस जारी किया था।आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने कहा था कि अस्पताल परिसर के भीतर सुअर घूमते पाए गए। राजस्थान सरकार की एक समिति ने कहा कि शिशुओं का सही इलाज किया जा रहा है।

भारत-पाक ने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान-प्रदान किया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 जनवरी।

भारत और पाकिस्तान ने 29 साल से चली आ रही परंपरा को जारी रखते हुए एक द्विपक्षीय व्यवस्था के तहत बुधवार को अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान-प्रदान किया। यह व्यवस्था दोनों देशों को एक-दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करने से रोकता है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने 'भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों के खिलाफ हमले पर रोक के समझौते' के तहत आने वाले परमाणु प्रतिष्ठानों और केंद्रों की सूची का आदान-प्रदान किया। यह नई दिल्ली और इस्लामाबाद में कूटनीतिक माध्यमों के जरिए किया गया। दोनों देशों के बीच कश्मीर मुद्दे को लेकर चल रहे कूटनीतिक तनाव के मद्देजन सूची का आदान-प्रदान किया गया। इस समझौते पर 31 दिसंबर 1988 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह 27 जनवरी 1991 को लागू हुआ। इस समझौते के तहत दोनों देशों के लिए हर साल एक जनवरी को एक-दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों और केंद्रों की सूचना देना अनिवार्य है।



गुवाहाटी में बुधवार को मंदिर में दीप जला कर नए साल का स्वागत करते श्रद्धालु।

पुलिसकर्मियों पर देसी बम फेंककर भागने वाला व्यक्ति गिरफ्तार

पालघर, 1 जनवरी (भाषा)।

महाराष्ट्र के पालघर जिले में पुलिसकर्मियों पर देसी बम फेंककर भागने के मामले में 37 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

मामला पिछले महीने का है जब मारपीट के एक मामले में पुलिसकर्मियों उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे थे। एक अधिकारी ने बताया कि विक्रान्तगढ़ तालुक में शंभेपाड़ा के रहने वाले संतोष के खिलाफ अदालत में उसकी गारंटी देने वाले व्यक्ति की पिटाई करने का मामला दर्ज किया गया था। संतोष की छोड़ी हुई पत्नी ने उसके खिलाफ

मेहनताने की मांग करते हुए मुकदमा दर्ज किया था। इसी मामले में एक व्यक्ति ने उसकी गारंटी ली थी और संतोष ने उसे पीटा था। पुलिस प्रवक्ता हेमंत काटकर ने बताया कि पुलिस जब 19 दिसंबर को मारपीट के मामले में संतोष को गिरफ्तार करने पहुंची तो उसने कथित तौर पर सुरक्षाकर्मियों पर जिरलेंटिन का देसी बम फेंका और भाग गया। उन्होंने बताया कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। इसके बाद उसकी तलाश शुरू की गई। काटकर ने बताया कि उसे मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ भादंसा की धारा 353, 286 , 224 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

तिरुवनंतपुरम, 1 जनवरी (भाषा)।

विवादास्पद संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ केरल विधानसभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित किए जाने के एक दिन बाद मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने बुधवार को इस बारे में भाजपा की आलोचना को खारिज करते हुए कहा कि राज्य विधानसभा के अपने विशेषाधिकार होते हैं। सीएए को निरस्त करने की मांग करते हुए मंगलवार को विधानसभा में प्रस्ताव

पारित होने के कुछ घंटे बाद कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने वाम सरकार को लेकर कहा कि विजयन को बेहतर कानूनी सलाह लेनी चाहिए। प्रसाद ने कहा था कि नागरिकता के संबंध में कानून पारित करने की शक्ति के पास संसद के पास है न कि विधानसभा के पास। भाजपा के राज्यसभा सदस्य जीवीएल नरसिंह राव ने राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को पत्र लिखकर केरल के मुख्यमंत्री को खिलाफ विशेषाधिकार हटाने और

अवमानना कार्यवाई शुरू करने का अनुरोध किया। विशेषाधिकार हटाने के बारे में पूछने पर विजयन ने संवाददाताओं से कहा, 'राज्य विधानसभाओं के अपने विशेषाधिकार होते हैं। ऐसे कदम के बारे में कहीं भी सुनने को नहीं मिला है, लेकिन हम मौजूदा परिस्थिति में किसी भी चीज से इनकार नहीं कर सकते क्योंकि आजकल देश में अप्रत्याशित चीजें हो रही हैं।' उन्होंने कहा कि विधानसभाओं के पास अपना

विशेष संरक्षण है और इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केरल इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य है। यह कानून संविधान के मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा सीएए का समर्थन करने के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखने का हक है।

जम्मू-कश्मीर : अदालतों में भर्तियों की अधिसूचना हाई कोर्ट ने वापस ली

जम्मू, 1 जनवरी (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की जिला अदालतों में 33 गैर राजपत्रित पदों को भरने के लिए दी गई विज्ञापन अधिसूचना वापस ले ली है। विपक्ष ने गत वर्ष अगस्त में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद सभी भारतीयों से आवेदन मांगए जाने का कड़ा विरोध किया था। जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के महापंजीयक संजय धार ने 26 दिसंबर, 2019 को रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन दिया था। इसमें आवेदन भरने की आखिरी तारीख 31 जनवरी, 2020 दी गई थी। धार ने मंगलवार शाम को एक ताजा अधिसूचना जारी कर कहा, 'सभी संबंधित लोगों की जानकारी के लिए ए अधिसूचित किया जाता है कि 26 दिसंबर, 2019 के विज्ञापन नोटिस को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है जिसमें जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट में गैर

राजपत्रित श्रेणी में अलग-अलग पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे।' अधिसूचना वापस लेने की कोई वजह नहीं बताई गई है लेकिन विभिन्न विपक्षी दलों के मुखर प्रदर्शन के बाद यह कदम उठाया गया है। नेशनल काफ्रेंस, जेकेएनपीपी और वाम दलों समेत विभिन्न विपक्षी दलों ने जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियों में स्थानीयों के लिए आरक्षण की मांग की है। स्थानीय लोगों के लिए जम्मू कश्मीर में नौकरियों के मुद्दे पर एक सवाल का जवाब देते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन के प्रवक्ता रोहित कंसल ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन ने कहा, 'सरकार को विभिन्न सुझाव मिले हैं और इनका अध्ययन किया जा रहा है।'

घान आईएनसी-259
क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र सीएच कॉर्पोरेट निवेशक मंत्रालय, नई दिल्ली (दिल्ली), के वरिष्ठ कर्मचारी अधिनियम 2013 की धारा 14 (1)(बी) तथा कर्मचारी पालन नियम, 2014 के नियम 41 के मामलों में तथा

मैा 010 भारत सार्वभौमिक निष्पक्ष निवेशक के मामले में (CIN: U74999DL1999PLC080346) (पंजीकृत कार्यालय- C/O आरसी कुमार पुस्तक ए-16 निरार नगर, परधान रोड, निरार नगर निहार दिल्ली उत्तरी पूर्वी क्षेत्र 110051 में) - - - - - याचिकाकर्ता सुधा

एतद्वारा सर्व साधारण को सूचना दी जाती है कि कंपनी अपने अतिरिक्त को निरर से डाा निररिटेड कंपनी में परिवर्तित करने के लिए इनके सदस्यों द्वारा अनुसंधान साधारण आम बैठक दिनांक 30/12/2019 में जारी विशेष प्रस्ताव के माध्यम से कर्मचारी अधिनियम 2013 की धारा 14(1)(बी) के अधीन क्षेत्रीय निवेशक, नई दिल्ली (दिल्ली), के वरिष्ठ कर्मचारी अधिनियम 2013 की धारा 14(1)(बी) के अधीन क्षेत्रीय निवेशक, उत्तरी क्षेत्र सीएच, कॉर्पोरेट निवेशक मंत्रालय, बी-2 विंग, द्वितीय तल, परधान भवन, सी0ओ0ओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110033 को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के अन्दर पंजीकृत डाक द्वारा अपनी आपत्ति के बारे में सूचित करे। तथा साथ में लिख की प्रकृति एवं विरोध के कारण यदि कोई है का उल्लेख करें एवं उसी हलकामा द्वारा संलग्न कर भेजे। आवृत्ति की एक प्रतिनिधि आवेदन कंपनी के नीचे उल्लिखित पंजीकृत कार्यालय में भी भेजे।

याचिकाकर्ता मैा 010 भारत सार्वभौमिक निष्पक्ष निवेशक की ओर से **80** दिनांक- 30.12.2019 **देवेन्द्र कुमार अग्रवाल (निवेशक)** स्थान- दिल्ली **80**040200062/66-107051960

(पंजीकृत कार्यालय- C/O आरसी कुमार पुस्तक ए-16 निरार नगर, परधान रोड, निरार नगर निहार दिल्ली उत्तरी पूर्वी क्षेत्र 110051 में)

घान आईएनसी-259
क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र सीएच कॉर्पोरेट निवेशक मंत्रालय, नई दिल्ली (दिल्ली), के वरिष्ठ कर्मचारी अधिनियम 2013 की धारा 14 (1)(बी) तथा कर्मचारी पालन नियम, 2014 के नियम 41 के मामलों में तथा

मैा 010 सीबीके इन्वोकेप (इंडिया) लिमिटेड के मामले में (CIN: U74999DL2000PLC106172) (पंजीकृत कार्यालय- बी-35, सतिर किलर नई दिल्ली (नई दिल्ली) डीएल 110076 में) - - - - - याचिकाकर्ता सुधा

एतद्वारा सर्व साधारण को सूचना दी जाती है कि कंपनी अपने अतिरिक्त को निररिटेड से डाा निररिटेड कंपनी में परिवर्तित करने के लिए इनके सदस्यों द्वारा अनुसंधान साधारण आम बैठक दिनांक 30/12/2019 में जारी विशेष प्रस्ताव के माध्यम से कर्मचारी अधिनियम 2013 की धारा 14(1)(बी) के अधीन क्षेत्रीय निवेशक, नई दिल्ली (दिल्ली), के वरिष्ठ कर्मचारी अधिनियम 2013 की धारा 14(1)(बी) के अधीन क्षेत्रीय निवेशक, उत्तरी क्षेत्र सीएच, कॉर्पोरेट निवेशक मंत्रालय, बी-2 विंग, द्वितीय तल, परधान भवन, सी0ओ0ओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110033 को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के अन्दर पंजीकृत डाक द्वारा अपनी आपत्ति के बारे में सूचित करे। तथा साथ में लिख की प्रकृति एवं विरोध के कारण यदि कोई है का उल्लेख करें एवं उसी हलकामा द्वारा संलग्न कर भेजे। आवृत्ति की एक प्रतिनिधि आवेदन कंपनी के नीचे उल्लिखित पंजीकृत कार्यालय में भी भेजे।

याचिकाकर्ता मैा 010 सीबीके इन्वोकेप (इंडिया) लिमिटेड की ओर से **80** दिनांक- 30.12.2019 **देवेन्द्र कुमार अग्रवाल (निवेशक)** स्थान- दिल्ली **80**040200062/66-107051960

(पंजीकृत कार्यालय- बी-35, सतिर किलर नई दिल्ली (नई दिल्ली) डीएल 110076 में)

Recommendations of the Committee of Independent Directors (ICD) on the Open Offer to the Shareholders of the Federal-Mogul Goetze (India) Limited ("Target Company") under Regulation 26(7) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, for acquisition of up to 13,916,676 fully paid-up equity shares of face value of Rs. 10/- each, representing approximately 25.02% of the total equity share capital ("Equity Shares") of Target Company on a fully diluted basis, from the eligible Equity Shareholders ("Eligible Shareholders"), by Tenneco Inc. ("Acquirer") together with Icahn Enterprises LP ("IIEP"), American Entertainment Properties Corp. ("AEP") and IEH FMGI Holdings LLC ("IEH") (collectively known as "PACs") ("Offer/Open Offer").	
1. Date	Wednesday, January 01, 2020
2. Name of the Target Company (TC)	Federal-Mogul Goetze (India) Limited
3. Details of the Offer pertaining to TC	The Offer is a mandatory offer for acquisition up to 13,916,676 fully paid-up Equity Shares of face value of Rs. 10/- each, representing approximately 25.02% of the fully diluted voting Equity Share capital of Federal-Mogul Goetze (India) Limited (the "Target Company") from the public shareholders of the Target Company by Tenneco Inc. ("Acquirer") payable in cash pursuant to Regulation 3(2) of SEBI (SAST) Regulations, 2011. The Offer has been made pursuant to the Regulation 3, Regulation 4 read with Regulation 5(1) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011, in light of the indirect acquisition of voting rights in and control by the Acquirer over the Target Company in terms of the definitive agreement dated 10th April, 2018 between the Acquirer, Icahn Enterprises L.P., American Entertainment Properties Corp. and Federal-Mogul LLC to acquire the ownership of the Target Company. The Corrigendum 2 to the Detailed Public Statement was published by CKP Financial Services Private Limited (the "Manager to the Offer") on December 27, 2019, for and on behalf of Acquirer and PACs announcing their intention to acquire up to 13,916,676 fully paid-up equity shares of face value of Rs. 10/- each representing approximately 25.02% of the fully diluted voting equity share capital of the Target Company from the public shareholders at a price of Rs.667.50/- per share including interest component.
4. Name(s) of the acquirer and PAC with the acquirer	Tenneco Inc. (Acquirer), Icahn Enterprises L.P. (PAC 1), American Entertainment Properties Corp. (PAC 2) and IEH FMGI Holdings LLC (PAC 3).
5. Name of the Manager to the offer	M/s CKP Financial Services Private Limited Delsol, 1st Floor, CTS No. C/597 & C/598, D'Monte Park Road, Near Bandra Gymkhana, Bandra (West), Mumbai-400050, India Tel: +91 932297964. E-mail: fmgi.openoffer@ckpfinaancialservices.com Contact Person: Mr. Brijesh Parekh
6. Members of the Committee of Independent Directors (Please indicate the chairperson of the Committee separately)	1. Mr. K. N. Subramaniam 2. Mr. Mukul Gupta Mr. K. N. Subramaniam is the Chairman of the Committee.
7. IDC Member's relationship with the TC (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any	Both of the abovementioned Directors are Non-Executive and Independent Directors. Neither of them: a. hold any Shares in the Target Company. b. has any relation with the Target Company's other directors or c. has any contract with the Target Company except contract to act as Independent Directors of the Target Company.
8. Trading in the Equity shares/other securities of the TC by IDC Members	None of the IDC members have traded in Equity Shares of Target Company preceding 12 months.
9. IDC Member's relationship with the acquirer (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any	None of the members of the IDC have any contracts / relationships with the Acquirer.
10. Trading in the Equity shares/other securities of the acquirer by IDC Members	Not Applicable. The IDC members have not traded in the Equity Shares/other securities of the Acquirer.
11. Recommendation on the Open offer, as to whether the offer is fair and reasonable	The Hon'ble Supreme Court vide its Order dated December 16, 2019 has upheld the valuation of shares at Rs. 608.46/- together with interest pursuant to the applicable provisions of SEBI (SAST) Regulations, 2011. The members of the IDC believe that the Open Offer made to the shareholders of Target Company at a price of Rs. 667.50/- (including interest component of Rs. 59.04) per fully paid Equity Share of Rs. 10/- each is fair and reasonable and the Open Offer is in conformity with provisions of SEBI (SAST) Regulations, 2011.
12. Summary of reasons for recommendation (IDC may also invite attention to any other place, e.g. company's website, where its detailed recommendations along with written advice of the independent adviser, if any can be seen by the shareholder)	IDC has evaluated the Public Announcement dated April 11, 2018, Detailed Public Statement (DPS) dated October 09, 2018, Draft Letter of Offer dated October 16, 2018, Corrigendum 1 to the DPS dated June 29, 2019, Corrigendum 2 to the DPS dated December 27, 2019 and Letter of Offer dated December 30, 2019 including the Valuation Report dated April 03, 2019, provided by Haribhakti & Co. LLP, Chartered Accountants. The IDC has taken into consideration the following for making its recommendations: a. The Securities Exchange Board of India communication dated July 4, 2019, together with the Observation letter of SEBI. b. The Order of the Securities Appellate Tribunal, Mumbai, in Appeal nos. 352 and 359 of 2019, Appeal Lodging Nos. 458 and 459 of 2019 and Miscellaneous Application no. 418 of 2019, dated November 07, 2019. c. The Order of the Supreme Court of India, in Civil Appeal nos. 9225/9226 of 2019 dated December 16, 2019. Keeping in view the above facts, IDC is of the view that the price of this Open Offer is fair and reasonable. However, the shareholders should independently evaluate the Offer and take informed decision in the matter.
13. Details of Independent Advisors, if any.	Nil
14. Any other matter(s) to be highlighted.	Nil

Note: The above stated information are only indicative in nature and contains minimum details with regard to the recommendations of IDC. IDC may include any other information under the respective headings which, in its view is relevant for shareholders of the Target Company for making an informed decision with respect to the open offer. To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information to be disclosed by the Target Company under the Takeover Code.

For and on behalf of Committee of Independent Directors of Federal-Mogul Goetze (India) Limited sd/-
Mr. K. N. Subramaniam
Chairman-Committee of Independent Directors

Place: Gurugram
Date: January 01, 2020

इन्टीग्रेटेड कैपिटल सर्विसेस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: 608, नई दिल्ली हाउस, परधान रोड, नई दिल्ली-110001।
TIF +91 11 4354 2784, Mobile +91 9811903459
CIN: L74999DL1999PLC051981
Email contact@grass.co.in, Website www.rras.co.in

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की एक बैठक बुधवार, 30 जनवरी 2020 को 4:00 बजे अपराह्न में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य व्यक्तियों में शामिल की पंजीकृत कार्यालय में 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त शिमाही के लिए कंपनी के अन्न-ऑडिटेड वित्तीय विवरणों पर विचार कर उसने अभिलेख में लिए जायेंगे। इसके अलावा, सभी (सूचीबद्ध व्यक्ति तथा उदात्तयन अर्थात) विनिम्न 2015 के विनिम्न 47(2) के अनुसार ने आगे विवरण कंपनी की वेबसाइट www.rras.co.in पर उपलब्ध है।

इन्टीग्रेटेड कैपिटल सर्विसेस लिमिटेड के लिए स्थान: नई दिल्ली हस्ता/- तिथि: 02.01.2020 **लक्ष्य प्रकाश (सीडीओ, अनुपालन अधिकारी)**

प्रप्रत्र सं. आईएनसी-19 सूचना

[कर्मचारी (निगम) नियमावली, 2014 के नियम 22(1) के अनुपालन में]

1) एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कर्मचारी अधिनियम, 2013 की धारा 8 (4)(ii) के अनुपालन में फायरड्रेग्म फॉर रल्केअर एंड रिसर्व द्वारा कर्मचारी अधिनियम, 1956 को धारा 25(1)(ए)/(क)कर्मचारी अधिनियम, 2013 की धारा 8(1) के अंतर्गत उरी जारी की गई वाइरड्रेग्म के निरस्त के लिए क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) के पास एक आवेदन दिया गया है। लाइसेंस निरस्त करने के बाद कर्मचारी को उसके नाम के अंत में "प्रवैतिट लिमिटेड" शब्द जोड़ना होगा।

2) कर्मचारी अधिनियम, 2013 की धारा 8(4)(ii) के प्रावधानों के अनुसार लाइसेंस के निरस्त के बाद कर्मचारी का प्रदान करने के लिए सेवाओं को खारिज तथा विक्री करने के लिए कॉम्प्लेक्स, पुरुषारण, कर्मचारी एजेंट, ब्रॉकर के रूप में कार्य का नियन्त्रण होगा।

3) रूफटॉप के बाद कर्मचारी के द्वारा मेमोरैंडम तथा ऑटोक्रस ऑफ एसेसिगन को प्रति 315, रेस्टेनर-1, डी-4, साकेत, दक्षिण दिल्ली-110017 में स्थित कर्मचारी के पंजीकृत कार्यालय में देखा जा सकता है।

4) एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इस आवेदन के प्रति यदि किसी व्यक्ति, फर्म, कर्मचारी, निगम अथवा कॉर्पोरेट निदेशक को कोई आपत्ति हो तो वे कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, 21 तल, परधान भवन, सी0ओ0ओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) के पास अपनी आपत्ति कर्मचारी को एक अखबार देने के बाद इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से सात दिनों के भीतर उचित रूप में तैयार करके एक प्रति 315, रेस्टेनर-1, डी-4, साकेत, दक्षिण दिल्ली-110017 में आवेदन के पास अव्यवहित करे।

कुचे एवं के विवेक
फायरड्रेग्म फॉर रल्केअर एंड रिसर्व
CIN-U93000DL2012NPL241667

हस्ता-/-
परमजीत धीमान
निदेशक
दिनांक: 01.1.2020
स्थान: दिल्ली
DIN-00781359

कार्यालय: रिक्वरी अधिकारी-II, ऋण वसूली अधिकरण-II, दिल्ली

ई-नौलामी विक्री सूचना

4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

आर.सं. नं. 124/2019 तिथि: 26.12.2019

युवियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम मे. ऑडिअन बिजनेस प्राि. "आरशा"

कथित रिक्वरी प्रमाण पत्र में मेरे आदेश तिथि 26.12.2019 के अनुसार 13.2.2020 को सार्वजनिक ई नौलामी विक्री द्वारा नीचे वर्णित संपत्ति को विक्री की जायेगी:

यह नौलामी विक्री वेबसाइट <https://www.bankauctions.in> पर 'ऑन लाईन ई-नौलामी' होगी। नौलामी की तिथि एवं समय: 13.2.2020 को 3 बजे अप. से 4 बजे अप. (4 बजे अप. के बाद यदि जरूरी हुआ, 5 मिनट की अवधि के विस्तार के साथ।)

क्रम सं.	संपत्ति का विवरण	आंशिक मूल्य (रु. में)	धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी) (रु. में)
1.	प्लॉट नं. 3, परटपडगंज इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एरिया 2000 वर्ग मी.	44,00,00,000/-	4,40,00,000/-

नियम एवं शर्तें

1. नौलामी विक्री वेबसाइट पॉर्टल: <https://bankauctions.in> पर 'ऑन लाईन ई-नौलामी' होगी।

2. ईएमडी का भुगतान रिक्वरी अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली खाता "आर.सं. नं. 124/2019" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर द्वारा किया जाएगा। उक्त डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर के द्वारा भुगतान के मूल प्रमाण पत्र, ईएमडी सहित पहचान के रत्न- सत्यापित प्रमाण (नोटर आर्ड-कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस/ पासपोर्ट) जिसमें फोटो में पत्राचार का पता शामिल हो तथा पैन कार्ड की रत्न: सत्यापित प्रति तथा कंपनी के मामले में कर्मचारी के बोर्ड के सदस्यों द्वारा प्रति प्रस्ताव अथवा कंपनी की प्रतिनिधित्व/ एटर्नी की पुष्टि करने वाले किसी अन्य दस्तावेज को प्रति अधिकरण 11.2.2020 के 4.00 बजे अप. तक रिक्वरी अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद प्राप्त ईएमडी अथवा ईएमडी के मूल प्रमाण को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. ईएमडी या ईएमडी के एनईएफ/डी/ आरटीओएस द्वारा जमा की गई मूल प्रमाण तथा प्रेषक के विवरणों जैसे पते, ई-मेल आईडी तथा मोबाईल नंबर आदि से युक्त लिफाफे के ऊपर 'आर.सं. नं. 124/2019' शीर्षकित किया जाना चाहिए।

4. संपत्ति को विक्री "जैसा है जैसा है आधार" पर की जा रही है।

5. बोलौदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई-नौलामी में भाग लेने से पूर्व विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए पॉर्टल <https://www.bankauctions.in> देखें एवं/अथवा श्री ललित मोहन जोशी, सीएच बैंक के मुख्य प्रबंधक, मो. नं. 9610447251, ई-मेल आईडी: arb-deli@unionbankofindia.com से सम्पर्क करें।

6. संपत्ति बोलौदाता को पॉर्टल पर पंजीकरण करना होगा तथा अग्रिम में लाइन आईडी तथा पारस्विक प्राप्त करना होगा जो 4, 4 क्लोजर इंडिया, हेल्सटाउन नं. 040-23886405, 08142000062/66, ई-मेल आईडी: info@bankauctions.in, संपर्क व्यक्ति श्री विकास, मोबाईल नं. 8142000809, ई-मेल आईडी: vikas@bankauctions.in से प्राप्त करना अनिवार्य है।

7. इच्छुक बोलौदाता में ईएमडी के भुगतान के बाद भी, 4 क्लोजर इंडिया, हेल्सटाउन नं. 040-23886405, 08142000062/66, ई-मेल आईडी: info@bankauctions.in, संपर्क व्यक्ति श्री विकास, मोबाईल नं. 8142000809, ई-मेल आईडी: vikas@bankauctions.in से ई-नौलामी प्रक्रिया का प्रक्षिण प्राप्त कर सकते हैं।

8. केवल ऐसे बोलौदाता अतिवाहन ई-नौलामी में भाग लेने के लिए अर्हिकृत होंगे जिसके पास वैध यूजर आईडी एवं पारस्विक तथा डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर के माध्यम से ईएमडी के भुगतान का निश्चित प्रमाण होगा।

9. संपातित क्रेत 5.2.2020 तथा 6.2.2020 को 10.30 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे तक सम्पत्ति का साईट पर निरीक्षण कर सकते हैं।

10. जो इच्छुक बोलौदाता रिक्वरी अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली के कार्यालय में 11.2.2020 तक आरक्षित मूल्य के ऊपर से अपना प्रस्ताव जमा करते हैं वे ई-नौलामी में भाग लेने के अयोग्य होंगे जो 13.2.2020 को 3 बजे अप से 4 बजे अप. के बीच आवोजित की जाएगी। यदि बोली अंतिम 5 मिनट में रखी जाती है तो अंतिम समय रत्न: 5 मिनट आगे बढ़ जायेगी।

11. बोलौदाता रु. 1,00,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) के ग्युणक में अपनी बोली सुधार कर सकते हैं।

12. असफल बोलौदाता ई-नौलामी के तत्काल बाद रिक्वरी अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली के कार्यालय से प्रत्यक्ष रूप से अपना ईएमडी प्राप्त कर सकते हैं।

13. सफल/ उच्चतम बोलौदाता को धरोहर राशि (ईएमडी) समांभोजित करने के बाद रिक्वरी अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली खाता "आर.सं. नं. 124/2019" के पक्ष में 25% का डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर तैयार करना होगा तथा उसे उरी तरह से भेजना होगा ताकि वह अधिकरण में अगले बैंक कार्य दिवस के 4 बजे तक पहुंच जाए।

14. सफल/ उच्चतम बोलौदाता को रिक्वरी अधिकारी-II, डीआरटी-II दिल्ली, खाता आर.सं. नं. 124/2019 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर द्वारा तथा संपत्ति की नौलामी की तिथि से 15 वें दिन, उस दिन को छोड़कर अथवा यदि 15वां दिन रविवार या अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्यालय दिवस को 1000/- तक 2% तथा 1000 से अधिक को सकल राशि पर 1% की दर से पाउंडेज शुल्क के साथ रिक्वरी अधिकारी- II, डीआरटी-II, दिल्ली के पास संबोधित, डीआरटी-II, दिल्ली के पक्ष में देय शेष 75% विक्री राशि का भुगतान करना होगा (डाक द्वारा शेष 75% राशि के भुगतान की स्थिति में यह उक्त रूप से रिक्वरी अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली के पास पहुंच जाना चाहिए। निर्धारित अवधि में भुगतान में चुक करने पर विक्री को नई उद्देश्यवा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से विक्री की जाएगी। विक्री के खर्चों के डेफे कराने के बाद अंभोहस्ताक्षरी यदि उपयुक्त समझते हैं तो जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जप्त कर ली जाएगी तथा चुक करने वाले क्रेता को उस राशि अथवा जिसके लिए वाद में उसकी विक्री की जाएगी, के प्रति दावे करने के सभी अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा।

15. अंभोहस्ताक्षरी को बिना कोई कारण बताए किसी या सभी बोलौदाता को स्वीकार या निरस्त करने, यदि अनुपयुक्त पाई जाती है, या किसी समय नौलामी को स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं तथा इस संदर्भ में उक्त प्रमाण प्रमाण प्राप्त तथा मान्य होगा।

संपत्ति की अनुसूची

संपत्ति की जाने वाली संपत्ति का विवरण	संपत्ति या इसके किसी भाग पर निर्धारित राज्य	किसी अन्य ऋणभार का विवरण, जिसके लिए संपत्ति उतरताये है	दावे, यदि कोई हों, जिसे संपत्ति पर रखा गया हो तथा कोई अन्य ज्ञात विवरण जिसमें उसकी प्रकृति एवं मूल्य हो
प्लॉट नं. 3, परटपडगंज इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, एरिया 2000 वर्ग मीटर	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं

(अतिरिक्त चक्र)

रिक्वरी अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली।